



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2024 / 10 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग  
नियुक्ति —II

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अप्रैल, 2024

संख्या: पर (एपी.बी)ए(3)—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: 2-6/71 22—राजपत्र/2024-30-04-2024 (973)

डी0पी0(नियुक्ति-II), तारीख 20-09-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-09-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- |                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। | 1. | (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशनज, 2024 है।  |
|                            |    | (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।   |
| शेड्यूल का संशोधन।         | 2. | हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 से संलग्न शेड्यूल की मद संख्या 8 की क्रम संख्या (vii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— |
|                            |    | “(viii) Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Group Instructor, Group-C in the Technical Education Department.”                                    |
|                            |    | “(ix) Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Junior Office Assistant-Information Technology (JOA-IT), Post Code 817, Group-C.”                      |

आदेश द्वारा,

डॉ0 अमनदीप गर्ग  
प्रधान सचिव (कार्मिक)

*[Authoritative English text of this department notification No. Per (AP-B)A(3)-1/2024 dated 27-04-2024, as required under article 348(3) of the Constitution of India].*

## PERSONNEL DEPARTMENT

### Appointment-II NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 27th April, 2024*

**No. Per (AP-B)A(3)-1/2024.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, notified *vide* notification No. 2-6/71

DP(Apptt.II) dated 20-09-1973, as published in Government of Himachal Pradesh extra ordinary Rajpatra dated 21-09-1973, namely:—

- |                               |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| Short title and commencement. | 1. (1)  | These Regulations may be called Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (amendment) Regulations, 2024.  |
|                               | (2)     | These shall come into force with immediate effect.   |
| Amendment of the Schedule.    | 2.      | In the Schedule appended to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, in item No. 8, after serial No. (vii), the following shall be inserted, namely:— |
|                               | “(viii) | Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Group Instructor, Group-C in the Technical Education Department.”   |
|                               | “(ix)   | Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Junior Office Assistant—Information Technology (JOA-IT), Post Code 817, Group-C.”   |

By order,

Dr. AMANDEEP GARG,  
Principal Secretary (Personnel).

---

**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, STATE OF HIMACHAL PRADESH,  
SHIMLA**

**NOTIFICATION**

*Shimla-171001, the 12th March, 2024*

**No. 1-10/2016-9314.**—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of two (02) days earned leave for **06th and 07th March, 2024** in favour of **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** of this department with permission to avail suffix *i.e.* Gazetted holiday, Second Saturday and Sunday falling on 08th, 09th & 10th March, 2024.

Certified that **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** would have continued to officiate, but for his proceeding on 02 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-  
(RAKSH PAUL SINGH)  
Deputy Advocate General,  
Himachal Pradesh, Shimla.

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

नम्बर मुकद्दमा : 18 / 2023

कु0 बबीता देवी पुत्री श्री लक्ष्मण, निवासी गांव कंगोस, डा0 सोल्लिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त कु0 बबीता देवी पुत्री श्री लक्ष्मण, निवासी गांव कंगोस, डा0 सोल्लिंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने मूल दरखास्त सहित जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जो शपथ-पत्र में दिनांक 02-01-1988 दर्शाई है व अज्ञानता के कारण जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोंडा के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया ने स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोंडा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त स्वयं की जन्म तिथि जो शपथ-पत्र में दिनांक 02-01-1988 ग्राम पंचायत पोंडा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 23-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

नं0 मुकदमा : 08 / 2024

तारीख रजुआ : 12-03-2024

श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 रतन चन्द, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

1. श्री आनन्द चन्द पुत्र स्व0 रतन चन्द, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

2. आम जनता पांगी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त बाबत मकफूद-उल-खबरी।

हरगाह इश्तहार हजा से आम जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 रतन चन्द, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरखास्त मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित गुजार रखी है कि उनके चाचा श्री आनन्द चन्द पुत्र स्व0 रतन चन्द 31-32 वर्षों से गुम हैं और न ही इस बीच उन्हें कभी भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है और न ही वह कभी गांव में आए और न ही किसी रिश्तेदारों से सम्पर्क किया जाना पाया गया है क्योंकि श्री आनन्द चन्द जब गुमशुदा हुए उनकी उम्र बहुत कम थी व उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अतः आनन्द चन्द की वरास्त इन्तकाल को उनके भाईयों के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री आनन्द चन्द व आम जनता, गांव पांगी को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त आनन्द चन्द की वरास्त के इन्तकाल को बजरिया मकफूद-उल-खबरी उनके भाईयों के नाम तस्दीक करने बारे किसी को भी कोई किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है तथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर,  
जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 03 / NT / 2023

तारीख मजरुआ : 21-02-2024

बखशी राम पुत्र धर्म नन्द, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी बखशी राम पुत्र धर्म नन्द, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल मडग्रा में प्रार्थी का नाम बगसों दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ—पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम बखशी राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल मडग्रा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम बखशी राम करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्री सीता राम पुत्र बालक राम, निवासी ग्राम कपरोल, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला,  
हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत क्यार ठियोग, विकास खण्ड ठियोग प्रतिवादी।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1134, दिनांक 05-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2024-3-1134, दिनांक 05-03-2024, 2. शपथ—पत्र आवेदक, 3. शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह, 4. जन्म रिपोर्ट, 5. अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, 6. आधार कार्ड व शपथ श्री लायक राम पुत्र गगीया राम, ग्राम क्यार, डा0 क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) व सन्दीप कुमार पुत्र बेली राम निवासी ग्राम क्यार,

डा0 क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) रिपोर्ट जिसमें आवेदन श्री सीता राम पुत्र बालक राम, निवासी ग्राम कपरोल, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की पुत्री कुमारी सानवी पुत्री श्री सीता राम की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री सीता राम पुत्र बालक राम, निवासी ग्राम कपरोल, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की पुत्री सानवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म अधिकारी शिमला ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-03-2024 को जारी हुआ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुमारी सानवी पुत्री श्री सीता राम पुत्र बालक राम, निवासी ग्राम कपरोल, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-05-2012 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में कुमारी सानवी पुत्री श्री सीता राम निवासी क्यार डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सतोग ठियोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

### ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री अभी राम, निवासी व डाकघर कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कलिण्ड ठियोग, विकास खण्ड ठियोग प्रतिवादी।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 894, दिनांक 21-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमश 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2024-2-773, दिनांक 16-02-2024, 2. शपथ-पत्र आवेदक, 3. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, 4. जन्म रिपोर्ट, 5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड व शपथ श्रीमती लिला देवी पत्नी अभी राम, निवासी व ग्राम कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 व शपथ-पत्र चेत राम पुत्र लच्छी नंद, ग्राम व डा0 कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 आवेदिका श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री अभी राम, निवासी व डाकघर कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कौशल्या देवी

पुत्री अभी राम, निवासी व डाकघर कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 21-02-2024 को जारी हुआ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कौशल्या देवी पुत्री अभी राम, निवासी व डाकघर कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-02-1976 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री अभी राम, निवासी व डाकघर कलिण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कलिण्ड, तहसील ठियोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

#### ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती केसरी देवी पुत्री कासी राम, निवासी उल्ही, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बगैड ठियोग, विकास खण्ड ठियोग प्रतिवादी।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 339, दिनांक 19-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2024-1-339, दिनांक 19-01-2024, 2. शपथ-पत्र आवेदक, 3. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, 4. मृत्यु रिपोर्ट, 5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड व शपथ श्री दिला राम पुत्र राम दास, निवासी खरयाना व शपथ पत्र श्री पनिया राम पुत्र स्व0 सेवा, वासी ग्राम रैना, डा0 बगैड, रिपोर्ट जिसमें आवेदिका श्रीमती केसरी देवी पुत्री कासी राम, निवासी उल्ही, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः, पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती केसरी देवी पुत्री कासी राम, निवासी उल्ही, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म अधिकारी शिमला ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 19-01-2024 को जारी हुआ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती केसरी देवी पुत्री कासी राम, निवासी उल्वी, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि० प्र० की जन्म तिथि 01-07-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती केसरी देवी पुत्री कासी राम, निवासी उल्वी, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि० प्र० की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बासा ठियोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

### ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व० श्री सिरि राम, निवासी शलोहा, डाकघर घुण्ड, जिला शिमला, हि० प्र०  
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बासा ठियोग, विकास खण्ड ठियोग  
प्रतिवादी।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व० श्री सिरि राम एक दरखास्त जन्म रजिस्टर में पंजीकरण करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उनका नाम पैदायशी स्थान ग्राम शलोहा, ग्राम पंचायत धुड पंजीकरण जन्म रजिस्टर में दर्ज न है जो अब वो दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) शपथ-पत्र आवेदक, 2. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, 3. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 4. आधार कार्ड व शपथ श्री बुद्धी राम पुत्र स्व० नरीया राम, निवासी शलोहा डा० घुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि० प्र० व शपथ-पत्र श्री धनी राम पुत्र वालक राम, निवासी शलोहा डा० घुण्ड, तहसील ठियोग रिपोर्ट जिसमें आवेदिका श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सिरि राम, निवासी शलोहा, डाकघर धुड, जिला शिमला, हि० प्र० जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सिरि राम, निवासी शलोहा, डाकघर धुड, जिला शिमला, हि० प्र० का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सिरि राम, निवासी शलोहा, डाकघर घुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि० प्र० की जन्म तिथि 01-07-1960 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति

न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सिरि राम, निवासी शलोहा, डाकघर धुड, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव घुण्ड ठियोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)

केस नं० : 4 / 2024

तिथि : 20-02-2024

श्री हरीष कुमार पुत्र स्व० राजिन्दर लाल, निवासी घासीगांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 31(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री हरीष कुमार पुत्र स्व० राजिन्दर लाल, निवासी घासीगांव, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत पनोग, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा घासी, गांव व उप-महाल रकांव, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पनोग के मौजा घासी गांव में राजेन्दर व उप-महाल रकांव में राजिन्दर सिंह दर्ज हो गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपने पिता का नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत पनोग व आधार कार्ड राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पनोग के महाल घासी गांव व उप-महाल रकांव में राजिन्दर सिंह की जगह राजिन्दर लाल दुरुस्त करवाना चाहता है।

इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का पनोग बराये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी राजस्व मालकागजात स्पष्ट किया कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल घासीगांव में राजिन्दर व उप-महाल रकांव में राजिन्दर सिंह दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी पनोग द्वारा भी अभिलाषा की गई।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-05-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री किरण पाल पुत्र सुखदेव सिंह, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल हरोली खास, हरोली प्रथम, हरोली द्वितीय, तहसील हरोली, जिला ऊना में राम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह की बजाये किरण पाल पुत्र सुखदेव सिंह दर्ज करने बारे।

श्री किरण पाल पुत्र सुखदेव सिंह, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम राम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह की बजाये किरण पाल पुत्र सुखदेव सिंह सही दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस मुश्त्री-मुनादी के माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन/वकालतन निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अथवा दिनांक 31-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह समझा जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

-----

**CHANGE OF NAME**

I, Seema Devi w/o Sunil Kumar, Village Mansimble, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) in school record my son's name wrongly entered as Suryansh. But his correct name is Suryansh Dhiman *vide* affidavit Notarized at Palampur.

SEEMA DEVI  
w/o Sunil Kumar,  
Village Mansimble, P.O. Bhawarna,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Seema Devi w/o Sunil Kumar, Village Mansimble, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) in school record my son's name wrongly entered as Sahil. But his correct name is Sahil Dhiman *vide* affidavit Notarized at Palampur.

SEEMA DEVI  
w/o Sunil Kumar,  
Village Mansimble, P.O. Bhawarna,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Deepak Thakur s/o Hardy Singh, r/o Village Chyali, P.O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) declares that in my 10th Class Marksheet *vide* Roll No. 2294255 CBSE board Delhi my father name was wrongly written as Hardy Singh whereas his correct and actule name is Hardy Singh. Concern please note.

DEEPAK THAKUR  
s/o Hardy Singh,  
r/o, Village Chyali, P.O. Darwa,  
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).